

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 27 August 2026

अब घर बैठे खोले सुकन्या समृद्धि अकाउंट, PNB के ऐप से मिनटों में हो जाएगा काम ; जाने पूरा प्रोसेस ।

Publisher

Published on 05 Jul 2025



अब PNB ONE ऐप से घर बैठे खोले सुकन्या समृद्धि योजना का खाता, जानिए पूरी प्रक्रिया और फायदे ।

SSY: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)** अब और भी ज्यादा आसान हो गई है । पहले जहां इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए आपको बैंक या **पोस्ट ऑफिस** के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब **पंजाब नेशनल बैंक (PNB)** ने अपने ग्राहकों के लिए यह **सुविधा मोबाइल ऐप** के जरिए घर बैठे ही उपलब्ध करा दी है ।

अब **PNB** के मोबाइल बैंकिंग ऐप **PNB ONE** के माध्यम से मिनटों में **सुकन्या समृद्धि योजना** का खाता ऑनलाइन खोला जा सकता है । इससे ना केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि **महिला सशक्तिकरण** और **बेटियों के उज्ज्वल भविष्य** की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा ।

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना ?

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक **लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम** है, जो बेटियों के भविष्य के लिए **आर्थिक सुरक्षा** प्रदान करती है । इस योजना के तहत **माता-पिता** या कानूनी अभिभावक अपनी **10 साल** से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं ।

इस योजना में **न्यूनतम 250 रुपये** और अधिकतम **1.5 लाख रुपये** प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं । इस पर वर्तमान में **8.2% तक** का ब्याज मिलता है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा **80C** के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है ।

PNB ONE ऐप से कैसे खोले सुकन्या समृद्धि अकाउंट ?

PNB ग्राहकों के लिए अब खाता खोलना बेहद आसान हो गया है। आइए जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस:

1. अपने मोबाइल पर PNB ONE एप्लिकेशन खोले।
2. मेन्यू से 'Services' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. फिर 'Govt Initiative' ऑप्शन चुनें।
4. अब 'Sukanya Samriddhi Account Opening' पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी डिटेल्स भरें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

बस, आपका खाता कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा। हालांकि, खाता आंशिक रूप से बंद करना, निकासी करना या समय से पहले बंद करने के लिए आपको बैंक शाखा में ही जाना होगा।

इस योजना के क्या हैं फायदे ?

1. बेटी के नाम पर सुरक्षित भविष्य के लिए बचत।
2. सरकार द्वारा तय आकर्षक ब्याज दर, फिलहाल 8.2%।
3. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट।
4. मैच्योरिटी 21 साल में होती है, लेकिन 18 साल के बाद आंशिक निकासी की सुविधा।
5. न्यूनतम निवेश सिर्फ 250 रुपये से शुरू हो जाता है।

महत्वपूर्ण बातें

1. योजना में खाता केवल 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर खोला जा सकता है।
2. हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है ताकि खाता एक्टिव रहे।
3. अगर तय समय पर राशि जमा नहीं की जाती तो खाता डिफॉल्ट में चला जाता है, जिसे दोबारा एक्टिव करने के लिए जुर्माना देना होता है।

डिजिटल सुविधा से लोगों को होगा फायदा

PNB द्वारा शुरू की गई यह डिजिटल सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जहां बैंकों और पोस्ट ऑफिस तक पहुंच सीमित है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ सकेंगे और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे।

अब बेटियों के नाम पर भविष्य की प्लानिंग करना और भी आसान हो गया है। **PNB ONE** ऐप के जरिए आप घर बैठे ही **सुकन्या समृद्धि योजना** का खाता खोल सकते हैं और अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही निवेश शुरू कर सकते हैं।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.